

මුහම්මද නබි (සල්ලේලාහු අලයිහි වසල්ලම්)
තුමාණන් අල් කුර්ආනය නවිරානයෙන්
(තෝරාවෙන්) පිටපත් කළාද?

यदि कुरआन यहूदियों के यहाँ से लिया गया होता, तो वे खुद बढ़-चढ़कर इसकी निस्वत अपनी ओर कर लेते। लेकिन क्या यहूदियों ने वह्य के उतरने के समय इस तरह का कोई दावा किया ?

क्या नमाज़, हज और ज़कात आदि शरई अहकाम तथा अन्य इस्लामी मामलात यहूदियों से भिन्न नहीं हैं ? फिर गैर-मुस्लिमों की गवाही पर विचार करें, जो कहती है कि कुरआन दूसरी पुस्तकों से भिन्न है, मानव निर्मित नहीं है तथा वैज्ञानिक चमत्कारों से भरा हुआ है। जब किसी आस्था का मानने वाला, उसकी आस्था के विपरीत आस्था को सही कहे, तो यह उसके सही होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह संसार के पालनहार का एकमात्र संदेश है और इसे एकमात्र संदेश होना भी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का लाया हुआ कुरआन आपकी जालसाज़ी की नहीं, बल्कि आपके सच्चे नबी होने की दलील है। अल्लाह ने भाषाज्ञान में माहिर अरब और गैर-अरब सब को चुनौती दी है कि वे इस कुरआन की तरह एक कुरआन या उसकी किसी आयत की तरह एक आयत ही ले आएँ, परन्तु वे विफल रहे। यह चुनौती आज तक क्रायम है।

දුස්මාණන් පිළිබඳ ඊර්ශන හා පිළිතුරු

මුහම්මද: <http://www.dhammadownload.com/2006-07-07/48/>

මුහම්මද මුහම්මද: <http://www.dhammadownload.com/2006-07-07/48/>

මුහම්මද 300 00 000 2026 07:57:21 00